

ब्रांडेड कंपनी का मार्का लगाकर सोनीपत में सप्लाई की जानी थी नकली वोल्टेज

Hindi News | Haryana | Sonipat

Sonipat News haryana news the branded company39s mark was to be supplied in sonapat with fake voltage

Sonipat News - ब्रांडेड कंपनी का माल खरीदने वालों सचेत हाेने की जरूरत है। मार्केट में ब्रांडेड कंपनी का मार्का लगाकर नकली माल...

Aug 04, 2019, 08:45 AM IST



ब्रांडेड कंपनी का माल खरीदने वालों सचेत हाेने की जरूरत है। मार्केट में ब्रांडेड कंपनी का मार्का लगाकर नकली माल सप्लाई करने का धंधा जोर पकड़ रहा है। सिटी थाना पुलिस ने अधिकृत कंपनी के फिल्ड मैनेजर के साथ मिलकर नकली वोल्टेज की बड़ी खेप पकड़ी है। इन वोल्टेज पर बजाज कंपनी व हेवेल्स कंपनी का मार्का लगा हुआ था। फिल्ड मैनेजर ने आरोप लगाया सारा माल नकली है। कंपनी का महज मार्का लगा है।

परवींद्र कुमार न्यू राम नगर, लुधियाना, पंजाब ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि स्पीड सर्च सिक्योरिटी एंड नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में फील्ड आॅफिसर के पद पर कार्यरत है। उसकी कंपनी हेवेल्स, बजाज व उषा कंपनी के नकली इलेक्ट्रिक वुड बनाने वाले, बेचने वाले व सप्लाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती है। वह सोनीपत में जांच करने आया था। तभी पता चला कि दिल्ली का एक व्यापारी सोनीपत में बड़े स्तर पर नकली वोल्टेज सप्लाई करने आ रहा है। सूचना उसने पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने रेड की और आरोपी को बस स्टैंड के पास से कनिष्ट महाजन काे काबू कर लिया। आरोपी से 72 नकली वोल्टेज बरामद की गई हैं। इन वोल्टेज पर हेवेल्स व बजाज कंपनी का मार्का लगा रखा था। आरोप लगाया कि जबकि यह माल नकली है। पुलिस ने शिकायत मिलने पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शिकायतकर्ता परमिंदर ने बताया कि 46 नकली वोल्टेज पर बजाज कंपनी व 24 पर हेवेल्स कंपनी का मार्का मिला है। माल पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है।

ड्राइवर को पता था गड़बड़ी का, वह काबू

गीता भवन चौकी इंचार्ज बिजेन्द्र ने बताया कि नकली वोल्टेज सप्लाई करने वाले आरोपी कनिष्ट महाजन दिल्ली को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद जब ड्राइवर राजीव निवासी बिहार से बात की तो उसने बताया कि उसे इस गड़बड़ी का पता था। जिसके चलते ड्राइवर राजीव को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

Source: https://www.bhaskar.com/haryana/sonipat/news/haryana-news-the-branded-company39s-mark-was-to-be-supplied-in-sonapat-with-fake-voltage-084505-5163347.html?utm_expid=.YYfY3_SZRPiFZGHcA1W9Bw.0&utm_referrer=